

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 1970/पौष 22, 1891

No. 15] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 1970/PAUSA 22, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January 1970

S.O. 146.—Whereas the name of the State of Madras has since been altered to Tamil Nadu, vide the Madras State (Alteration of Name) Act, 1968:

And Whereas the Commission considers it necessary to correct the name of State wherever it occurs in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1968;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 2 of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission hereby makes amendments in the said Order as follows:—

- (1) in the Table of Contents, for the entry “9. Madras” substitute the entry “9. Tamil Nadu”;
- (2) in Schedule IX, in the heading, for the word “Madras” substitute the words “Tamil Nadu”; and
- (3) in the Annexure (pages 411 to 419) to the Order after Schedule XXIII, for the word “Madras” substitute the words “Tamil Nadu”, wherever it occurs.

[No. 282/1/TN/70.]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

(41)

